



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 आषाढ़ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 310) पटना, शुक्रवार, 6 जुलाई 2012

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई 2012

सं0 बी1-3-81/2012-24—उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 प्रसाद,

संयुक्त सचिव।

## उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की  
लोक सूचना

भारत के उपराष्ट्रपति पद को भरन के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा-4 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं, टी.के. विश्वनाथन, सूचना देता हूँ कि -

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थपाकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं. 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हों, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर, श्री वी.आर. रमेश, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 20 जुलाई 2012 के अनुपरान्त (लोक अवकाश -दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर दिन नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जायेगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रकृत हैं;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चातकथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा-5ख की उप-धारा (4) के अधीन नामजूर किये गये नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय कमरा नं. 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली में शनिवार, 21 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 11 बजे की जायेगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस नामित प्राधिकृत किया गया हो, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में 23 जुलाई, 2012 को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियम किये गये मतदान के स्थान में मंगलवार, 7 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से और अपराह्न 5:00 बजे के बीच होगा।

नई दिल्ली ;

दिनांक : 6 जुलाई, 2012

टी.के. विश्वनाथन,  
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012  
के लिए रिटर्निंग आफिसर  
और  
महासचिव, लोक सभा

## OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR PRESIDENTIAL ELECTION, 2012

### PUBLIC NOTICE OF ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Election Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, T.K. Viswanathan, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that -

- (i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officer, Shri V.R. Ramesh Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat at

- the said office between 11A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the 20<sup>th</sup> of July, 2012;
- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;
  - (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees fifteen thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;
  - (iv) forms of nomination papers may be obtained from the abovesaid office at the time aforesaid;
  - (v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on Saturday, the 21<sup>st</sup> of July, 2012 at 11 A.M.;
  - (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorized in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of 23<sup>rd</sup> of July, 2012;
  - (vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Tuesday, the 7<sup>th</sup> of August, 2012 between the hours of 10 A.M. and 5 P.M. at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi;  
Dated the 6<sup>th</sup> of July, 2012

T.K. VISWANATHAN,  
RETURNING OFFICER  
FOR THE  
VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2012  
AND  
SECRETARY-GENERAL, LOK SABHA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 310-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>